

12



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं० 12] नई दिल्ली, अप्रैल 30-मई 6, 2006, शनिवार/वैशाख 10-वैशाख 16, 1928  
No. 12] NEW DELHI, APRIL 30-MAY 6, 2006, SATURDAY/VAISAKHA 10-VAISAKHA 16, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनो को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications issued by Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 1 मई, 2006

आ.अ. 43.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, आई.ए.एस. के स्थान पर श्रीमती सतबीर सिलास बेदी, आई. ए. एस. (एजीएमयू : 1986) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्रीमती सतबीर सिलास बेदी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगी या धारण करना समाप्त कर देंगी, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रही थीं।

3. श्रीमती सतबीर सिलास बेदी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पद पर कार्य करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगी सिवाय इसके कि उनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं. 154/डी. एल./2005-का. प्रशासन]

आदेश से,

स्टेन्डहोप युहलुंग, अवर सचिव

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

New Delhi, the 1st May, 2006

**O.N. 43.**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of National Capital Territory of Delhi hereby nominates Smt. Satbir Silas Bedi, IAS (AGMU : 1986) as the Chief Electoral Officer for the National Capital Territory of Delhi with effect from the date she take over charge and until further orders *vice* Shri Rajesh Kumar Srivastava, IAS.

2. Smt. Satbir Silas Bedi shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of National Capital Territory of Delhi, which he may be holding before such assumption of office.

3. Smt. Satbir Silas Bedi while functioning as the Chief Electoral Officer, National Capital Territory of Delhi shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of National Capital Territory of Delhi except that she should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the Secretariat of National Capital Territory of Delhi.

[No. 154/DL/2005-P.Admn.]

By Order,

STANDHOPE YUHLUNG, Under Secy.

**आदेश**

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2006

**आ.अ. 44.**—यतः, उड़ीसा राज्य में 09 खुन्टा (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से उड़ीसा विधान सभा, के लिए 2004 साधारण निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने वाली श्रीमती उषामणि सिंह, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं;

और, यतः, श्रीमती उषामणि सिंह ने उक्त असफलता के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक सूचना दिए जाने पर भी कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है;

अतः, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त अभ्यर्थी के पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम के नियम 10क के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, श्रीमती उषामणि सिंह को संसद के किसी भी सदन का या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य होने या चुने जाने के लिए इस आदेश की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए, एतद्वारा निरहित घोषित करता है।

[सं. 76/उड़ीसा-वि. स./2004/(8)]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 7th, April, 2006

**O.N. 44.**—Whereas, Smt. Ushamani Singh a contesting candidate at the General Election to the Orissa Legislative Assembly, 2004 held from 09—Khunta (ST) Assembly Constituency in the State of Orissa has failed to lodge any account of his election expenses, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas, Smt. Ushamani Singh has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission;

And, whereas, the Election Commission is satisfied that the said candidate has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares Smt. Ushamani Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of 3 years from the date of this Order.

[No. 76/OR-LA/2004/(8)]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2006

आ.अ. 45.—यतः, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उड़ीसा विधान सभा 2005 का उप निर्वाचन, जो स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित या उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथादर्शित विधि द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः, उक्त अभ्यर्थी ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण अथवा न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा निरहित घोषित करता है :—

## सारणी

क्रम सं.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहता का कारण
1	2	3	4
1.	135—सुन्दरगढ़	दिलीप कुमार पाण्डा, स्थान/डाकघर संकारा, थाना-टाउन, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा।	लेखा दाखिल नहीं किया गया।
2.	135—सुन्दरगढ़	मारसेल किसान, स्थान/डाकघर लैंग, द्वारा कंस बहल, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा।	लेखा दाखिल नहीं किया गया।

[सं. 76/उड़ीसा-वि. स./2004]

आदेश से

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 7 April, 2006

O.N. 45.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the Bye-Election to the Orissa Legislative Assembly, 2005 held from the constituency specified in column (2) against his name has either failed to lodge any account of his election expenses or failed to lodge his election expenses in manner required by law as shown in column (4) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission after considering the representation if any, made by them, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

TABLE

Sl. No.	Number & name of assembly constituency	Name & Address of contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4
1.	135—Sundergarh	Dilip Kumar Panda, At/P.O.—Sankara, P. S.—Town, District—Sundargarh, Orissa.	Accounts not lodged.
2.	135—Sundergarh	Marsel Kisan, At/P.O.—Laing, Via—Kansbahal, District—Sundargarh, Orissa.	Accounts not lodged.

[No. 76/OR-LA/2004]

By Order,  
R. K. SRIVASTAVA, Secy.